

# G. K. CONSULTANTS LIMITED

PROJECT CONSULTANTS-CONCEPT TO COMMISSIONING Web: gkconsultantsitd.com, CIN: L74140DL1988PLC034109 302, G. K. HOÜSE, 187A, SANT NAGAR, EAST OF KAILASH, NEW DELHI-110065. INDIA

PHONE: 26489299, 26489431 FAX: 011-26489299

E-mail: akg\_gkcl@yahoo.co.in

GKCL: SE:2024-25 September 08, 2024

To, Bombay Stock Exchange Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001

Scrip Code : 531758

Sub.: Compliance under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Notice of 36<sup>th</sup> AGM

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to applicable regulation of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of each newspaper clipping of the advertisement published on 06.09.2024 on the subject matter in the following newspapers:

- a) Jansatta
- b) Financial Express

This is for your information and record.

Thanking you,

For G.K. CONSULTANTS LIMITED

Khushambi

**Company Secretary and Compliance Officer** 

# **FINANCIAL EXPRESS**

MISHKA EXIM LIMITED CIN L51909DL2014PLC270810

Registered Office Add: F-14, First Floor, Cross River Mall, CBD Ground, Shahdara, Delhi-110032, PH NO- 9818110804, Email:mishkaexim@gmail.com

NOTICE OF 10<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND **BOOK CLOSURE DATES** 

Notice is hereby given that the 10th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday the 30th day of September, 2024 at 10:00 A.M at Le Chef, 3rd Floor, Cross River Mall, CBD Ground, Shahdara, Delhi-110032 to transact the business as set out in the Notice. The Notice of AGM, Annual Report, Attendance Slip and Proxy form has been sent in electronic mode to members who's E-Mail Ids registered with the Company or the Depository's Participants unless the Members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copies have been sent to those members who have not registered their E- Mail IDs with the Company or Depository's Participants. The copy of the Annual Report is also being placed on the website of the Company i.e. mishkaexim.com. Notice is given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and read with the clause

42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th September 2024 to 30<sup>th</sup> September, 2024 (both days inclusive).

The Company pleased to provide its members, the facility to cast their vote by electronic means (e-Voting) on all the resolution set forth in the Notice of the 10th AGM. The details pursuant to the provisions of the Act and the said rules are given here under:

Date of Completion of dispatch of Notice on Saturday, 7th day of September, 2024.

b) The voting period begins on 27th September 2024 from 09:00 a.m. and ends on 29th September 2024 at 05:00 p.m. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) i.e. 23rd September 2024 may cast their vote electronically.

In case any member has any queries or issues regarding e- Voting, please contact helpdesk.evoting@cdslindia.com. For any difficulties, kindly contact the secretarial Department by letter or through email: mishkaexim@gmail.com.

for Mishka Exim Limited

Date: 07.09.2024 Place: Delhi

Rajneesh Gupta **Managing Director** 

## NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

(CIN: L51909DL1984PLC019485)

Regd. Office-9062/47, RAM BAGH ROAD, AZAD MARKET, DELHI- 110006 Tel. No.-011-23517516-19, Email Id-cs@neccgroup.com, Websitewww.neccgroup.com

### NOTICE TO THE MEMBERS FOR UPDATE OF E-MAIL ADDRESS AND OTHER INFORMATION

Pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 08, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 , Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022 , Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 & Circular no. 09/2023 dated 25th September, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI" vide its latest Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 2023 read with circular no SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5. 2023 & Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (referred to as "SEBI Circulars"), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"). without the physical presence of the Members at the meeting. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars and SEBI Circular, the upcoming 39th AGM of the Company will be held on Monday, 30th Day of September, 2024 at 1.00 P.M (IST) through VC/OAVM. Hence, Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

Pursuant to the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of 39th AGM along with the Annual Report for FY 2023-2024 will be sent through electronic mode only, to those Members whose E-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with Depository Participant ("DP")/ Depository. The Company is also providing e-voting during the AGM and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices.

If your email address is already registered with the Company/RTA or DP/Depository. Notice of AGM along with annual report for FY 2023-2024 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/RTA or DP/ Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining notice, annual report for FY 2023-2024 and login details for e-voting.

Registration/updation of e-mail addresses& bank account details:

Holding

Demat

Physical

T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area Phase - II, New Delhi - 110020 in duly filled Form No. ISR-1, which can be downloaded from the website of the RTA's website i.e. www.masserv.com under download tab. You can also send the Form No. ISR-1 with digital signature to RTA's email id investor@masserv.com under copy marked to company at cs@neccgroup.com

Send a request to RTA of the Company i.e. MAS Services Limited a

Please contact your DP and register your email address and bank account details as per the process advised by DP.

Holding E-voting Information:

The Company will provide its shareholders facility of remote e-voting through electronic voting services arranged by NSDL. Electronic voting shall also be made available to the shareholders participating in the AGM. Details regarding the same will be provided in the Notice of the AGM and will also be made available on the Company's website viz.

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2023-2024 will also be available on Company's website www.neccgroup.com and website of BSE Limited at www.bseindia.comand National Stock Exchange of India Ltd at www.nseindia.com. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In case of any query, the Members may contact or write RTA at address & E-mail ID as

mentioned above under copy marked to the Company. For North Eastern Carrying Corporation Limited

SONI MEDICARE LIMITED

CIN: L51397RJ1988PLC004569

Registered Office: 38, Kanota Bagh, Jawahar Lal Nehru

Marg, Jaipur Rajasthan 302004, Phone No.: 0141-5163700

Website: www.sonihospitals.com; E-mail ID: cs@sonihospitals.com

Notice of 36th Annual General Meeting,

e-voting and book closure

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM)

of the Members of Soni Medicare Limited ("The Company") will be

held on Monday, September 30, 2024 at 03:00 P.M. at the registered

office of the company at 38, Kanota Bagh, Jawahar Lal Nehru Marg,

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and

Annual report for the financial year 2023-2024, etc. will be sent to all

the Members of the Company whose name appears in the Register of

Members as on August 30, 2024 and whose email addresses are

registered with the Company/ Depository Participant(s). The afore-

said documents will also be available on the Company's website at

www.sonihospitals.com, and on the website of BSE Limited at

Manner of registering/updating email addresses by the

In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name

of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back),

PAN (self-attested scanned copy of Pan Card), Aadhar (self-attested

In case shares are held in Demat mode, please provide DPID-CLID

(16-digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or

copy of Consolidated Account statement, Pan (self-attested scanned copy

of Pan Card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to

The remote e-voting will commence on Friday, 27th September, 2024, at

9.00 A.M. IST and will conclude on Sunday, 29th September, 2024 at 05.00

P.M. IST. Members of the Company, holding shares either in physical or

dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2024,

\* The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members hold-

ing shares in dematerialized made, physical mode and for members who

have not registered their email addresses has been provided in the Notice

of the AGM. The details will also be available on the website of the

\* The login credentials for casting votes through e-voting shall be made

available to the members through email. Members who do not receive

email or whose email addresses are not registered with the

Company/Depository Participant (s), may generate login credentials by

The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed

from Tuesday, 24th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024

By The Order Of Board

For Soni Medicare Limited

Juhi Gurnani

Company Secretary & Compliance Officer

following instructions given in the Notes to Notice of AGM.

(both days inclusive), for the purpose of the aforesaid AGM.

Manner of casting vote (s) through e-voting is given below:

scanned copy of Aadhar Card) by email to cs@sonihospitals.com

Place: Delhi Date: 06.09.2024

Jaipur RJ 302004 IN.

www.bseindia.com.

cs@sonihospitals.com.

may cast their votes by remote e-voting.

Company www.sonihospitals.com

Place: Jaipur

Date: 06th September, 2024

Members is given below:

Sunil Kumar Jain Chairman & Managing Director

Date: 06.09.2024

Place: New Delhi

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of LAZZAT FOODS PRIVATE LIMITED (CIN U15202DL2010PTC207779) having its Registered Office at J-179 VIKASPURI, SOUTH DELHI, NEW DELHI, DELHI,

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on August 12, 2024 to enable the Company to shift its Registered office

from the State of "NCT DELHI" to the State of "UTTAR PRADESH".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed shift of the Registered Office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complain form or cause to be delivered or send by registered post, his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to The Regional Director, B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 2nd floor, CGO Complex, New Delhi-110003, within 14 (Fourteen) days from the date of publication of this Notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned

For and on behalf of LAZZAT FOODS PRIVATE LIMITED

Sd/-**KAPIL AGARWAL** 

Director DIN: 02616917

Date: September 07, 2024 Place: Delhi

Address: 3/19/1 Behind Civil Court, Sita Kunj, Agra Uttar Pradesh 282002 India

# D. D. VENTURES LIMITED

CIN: L50102DL1984PLC017834 R.O. 68-68/1, Basement-1, Najafgarh Road, Industrial Area, Moti Nagar, West Delhi, India, 110015 | Tel. No. 011 44400444, Email Id: a.bhaskar@ddmotors.net, Website: www.ddventures.in

> NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the members of the company will be held on Monday, 30th Day of September, 2024 at 03:00 P.M at . 68-68/1, Basement-1, Najafgarh Road, Industrial Area, Moti Nagar, West Delhi, India, 110015, physically or through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility in accordance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with general circular no. 20/2020, 14/2020 and 17/2020 and all other circular issues by MCA, GOI, and SEBI to transact the business set out in

In compliance of the above circulars electronic copy of the notice of AGM together with the copy of Annual Report for the financial year 2023-24 has been sent to all members whose email address are registered with the Company/DP /RTA and the same will also be available on our website www.ddventures.in and on website of Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI).

Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 23.09.2024 to Saturday, 30.09.2024 (Both days inclusive) for the The Company is providing e-voting facility to its Members as provided by CDSL on all resolution as set out in the Notice of AGM. Members of the company may transact the

NOTICE is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and

business through voting by electronic means. Members whose email address is not registered with the company /DP, Please register your email ID address to obtain The remote e-voting facility commence at 09.00 a.m. on Friday, 27th September 2024 and will end at 5.00 p.m. on Sunday, 29th September, 2024 for all shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form.

not be allowed beyond the said date and time. The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic voting is Monday 23rd September, 2024.

The e-voting module shall be displayed by CDSL for Voting. Remote e-voting shall

A person, who acquires shares and become shareholders of the Company after dispatch of Notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining login-id and password by sending an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com/ admin@skvlinerta.com by mentioning their folio no./DP ID and Client ID No. However if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user id and password can be used for remote e-voting.

Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote evoting, shall be able to exercise their right at the meeting.

5. A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not allowed vote again at the meeting.

Notice of AGM is available on company website www.ddventures.in and on the website of CDSL-www.evotingindia.com

A person, whose name recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on 23rd September 2024. shall be entitled to vote.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, kindly refer frequently asked questions and e voting manual available at www.evotingindia.com, under Help section or Email helpdesk.evoting@cdslindia.com, Toll Free No. 1800-200-5533 or Mr. Sunil Datt Sharma, Director at complianceddm@gmail.com.

For D. D. Ventures Limited

Sunil Datt Sharma

Director DIN: 07422151

### WOODSVILLA LIMITED Regd. off: E-4 2nd Floor Defence Colony, New Delhi, India, 110024

CIN: L55101DL1994PLC030472 Website: www.woodsvilla.in, Email: VNA1974@GMAIL.COM. Ph. No. 01141552060

NOTICE OF 36" AGM AND REMOTE E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 36° Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Sunday, 29th September, 2024 at 5:00 P.M. (IST) THROUGH VIDEO CONFERENCING(VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS(OAVM) to transact the business as set out in 3614 AGM Notice dated 0511 September 2024 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made there under, read with MCA/SEBI circulars without physical presence of members at the common

In compliance with the circulars, the Notice convening the 36" AGM and the Annual Report for the financial year 2023-2024 have been sent to the members electronically to the e-mail ID registered by them with the Company/ Depository Participants and have been dispatched as per the permitted mode to those members who have not registered their e-mail id's with the company/ Depository Participants on or before 30.08.2024.

This Notice of 36" AGM and the Annual Report 2023-24 will also be available on the Company's website www.woodsvilla.in and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com).

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereof and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is providing e-voting facility to its members holding shares as on Sunday, 22" September, 2024 being cut off date, to exercise their vote on business to be transacted at the meeting of the company. The members may cast their vote by using an electronic voting system from a place other than that the venue of meeting (evoting). The company has engaged NSDL to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as

- E-voting period commences on Thursday 26" September 2024 at 09:00A.M and ends on Saturday 28\* September 2024 at 05:00 P.M
- The voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on 28<sup>th</sup> September 2024.
- The businesses set out in the notice of AGM, may be transacted through e-voting or e-voting facility at the AGM. The facility of joining the AGM through VC/OAVM shall 30 minutes before and after
- members on first come first serve basis. The share transfer book of the Company will remain closed from Monday, 23" September, 2024 to Sunday, 29th September, 2024 (both days inclusive) for the

the scheduled time of the commencement of the meeting and will be available for

- purpose of the Annual General Meeting. Any person who becomes the member of the company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut off date i.e., 22" September, 2024, may obtain the login id and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or info@masserv.com. Members are requested to login at
- http://eservices.nsdl.com/ by using the remote login credentials. The link for electronic participation through VC/OAVM during the meeting will be available in shareholders/members login portal where EVEN of the company shall be In case you have queries or issues regarding e-voting, you mail at evoting@nsdl.co.in. Toll free no: 1800 1020 990 and 1800 224430. Further members may also contact Mr. Sharwan Mangla, General Manager, Mas Services Limited, RTA at info@masserv.com or on Telephone No.: 011-26387281/82/83,

For details related to e-voting refer to the notice of AGM. In case you have gueries

or issues regarding e-voting, you may refer the FAQ's and e-voting manual

- available at http://www.evoting.nsdl.com.under.downloads.section. Mr. Kundan Agrawal, a Practicing Company Secretary (Membership No. F7631). Proprietor, M/s Kundan Agrawal & Associates has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and
- 9. A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Dated: 06.09.2024 Place: New Delhi

Vineeta Agrawal Company Secretary

MODI NATURALS LIMITED Regd. Off.: 405, Deepali Building, 92, Nehru Place, New Delhi-110019

Corporate Off.: D-185 /1B, 2nd Floor, Okhla Phase-I, New Delhi-110020 Phone: 011-41889999, Email: investors@modinaturals.org Website: www.modinaturals.com, (CIN: L15142DL1974PLC007349)

- Shareholders may note that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Modi Naturals Limited ("the Company") will be held over Video Conference("VC")/Other Audio Visua Means ("OAVM") facility on Monday, 30th September, 2024 at 2:30 P.M IST in compliance with General Circular No.02/2022 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting.
- In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2023-24 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s).
- Manner of registering/updating email addresses:
- Shareholders holding share(s) in dematerialized form, are requested to register their email address and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants.
- (ii) Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to Registrar and Transfer Agent of the Company at admin@skylinerta.com or to the Company at: investors@modinaturals.org, along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio no., address of the Member, self attested copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any documen (such as Driving License, Election Identity Card, Passport, etc.) as proof of address
- The notice of the 50th AGM and Annual Report for financial year 2023-24 will also be made available on the Company's website at www.modinaturals.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of CDSI https://www.evotingindia.com.
- Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders.
- The 50th AGM Notice will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email addresses on or before 08th September 2024.
- Members are requested to update their email addresses by 21st September 2024.
- After successful registration of the email address, the Members of the Company as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2024 can write to Company or RTA to receive a soft copy of the AGM Notice along with the Annual Report and Voting instructions. In case of any queries, Members are requested to write to the RTA at: admin@skylinerta.com or to the Company at investors@modinaturals.org.

This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company in compliance with the applicable Circulars of MCA and SEBI.

For Modi Naturals Limited Akshay Modi

Place: New Delhi Jt. Managing Director Date: 06 September 2024

ESPIRE HOSPITALITY LIMITED Regd Off: Shop No #1, Country Inn, Mehragoan, Uttarakhand-248179 Regd On: Snop No # 1,000110 y 1111,111011103 Corp Off:A-41, Mohan Co-operative Industraial Estate, New Delhi-44 CIN:L45202UR1991PLC000604,(E):cs@espirehospitality.com (T): 011-71546500 ,(W):www.espirehospitaliy.com NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, Notice is given that: 1. The 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Country Inn

Nature Resorts, Mehragaon ,Bhimtal, Uttarakahnd- 248179 on Saturday 28<sup>th</sup> September, 2024 at 10:30 AM to transact the Ordinary/Special Business, as set out i Electronic copies of the notice of AGM and Annual Report for 2023-24 have been sent to

all the members whose email id's are registered with the company/ depository participants. The same is also available on the comapany's website www.wellesleycorp.com & on NSDL website http://www.evoting.nsdl.com .Phycia Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2023-24 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 06<sup>th</sup> September, 2024. Members holding shares either in physical form or in dematerlialized form, as on cut-of

date of 30th Aug,24 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Nationa Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM (remote e voting). All the members are informed that remote evoting shall commence from 09:00 hours of 25th September, 2024 and shall end on 17:00 hours on 27th September, 2024 after this period the event will be no longer available for casting votes by "E-Voting Persons who have acquired shares and became members of the Company after the

dispatch of the notice of AGM and holding shares as on the Cut Off date of 20 September,2024 may obtain their user ID and password for Remote E-voting from the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or NSDL 5. The Company's Register of Members and Transfer Books will remain closed from 25<sup>th</sup>

September, 2024 to 1st October, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the

In case of any evoting related queries, kindly refer Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no.: 1800-222-990& for grievance at Phone No. +91 22 24994600/24994738 or by e mail on evoting@nsdl.co.in.You may also conact for any grievance w.r.t e-voting, to Mr. Sumeer Narain Mathur (Company Secretary & Compliance Officer ), A-41, Mohan Cooperative Induastrial Estate, New Delhi-110044 or at cs@espirehospitality.com

For Espire Hospitality Limited

Date: 07th September,2024 Sumeer Narain Mathur Place: New Delhi (Company Secretary & Compliance Officer)

### G. K. CONSULTANTS LIMITED CIN-L74140DL1988PLC034109

Registered Office: 302, G.K. House, 187A, Sant Nagar, East Of Kailash, New Delhi-110065, India | Phone: 011-26489431 **E-mail:** akg\_gkcl@yahoo.co.in; **Website:** www.gkconsultantsltd.com NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH

VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of

M/s G.K. CONSULTANTS LIMITED ("the Company") will be held on Saturday, September 28, 2024 at 04:00 P.M., through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with applicable General Circular(s) issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities & Exchange Board of India ("SEBI") in this regards, to transact such business(es) as set out in the 36th AGM Notice, without physical presence of Members at a common Venue In accordance to the MCA Circulars & SEBI Circulars, the Company has completed the

dispatch of the Notice of 36th AGM alongwith Annual Report 2023-24 for the financial year ended on March 31, 2024, on Friday, September 06, 2024 only through electronic mode to those members, whose e-mail IDs were registered with the Company / Depository Participant as on Friday, August 30, 2024. Members can participate and attend the AGM only through VC/OVAM facility, the details/

instructions for Joining the Meeting are provided under the Notes section of the Notice of 36th AGM. Members attending the Meeting through VC/OVAM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The notice of 36th Annual General Meeting alongwith Annual Report 2023-24, is available

on the Company's website at https://www.gkconsultantsltd.com and also available on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at https://www.bseindia.com. Instructions for e-voting are as under: -

(i) The company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on

- resolution(s) proposed to be passed at the 36th AGM by electronic means (remote e-voting / e-voting at the 36th AGM). The company has engaged the services of NSDL as the agency for providing the remote e-voting / e-voting at the 36th AGM facility to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of 36th AGM. The Detailed procedure to cast vote through remote e-voting / e-voting at the 36th AGM are provided in the Notice of 36<sup>th</sup> AGM. The Members are requested to read the instructions carefully: The remote e-voting period shall commence on Wednesday, September 25, 2024
- (09:00 a.m.) and ends on Friday, September 27, 2024 (05:00 p.m. IST). The remote e-voting shall be disabled by NSDL thereafter and remote e-voting shall not be (iii) A person, whose name appears/ recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date
- i.e., Saturday, September 21, 2024 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the meeting: (iv) Any person, who has acquired shares and becomes the member of the Company after sending the notice of 36th AGM and holding shares as on cut-off date (for e-voting) i.e., Saturday, September 21, 2024 may obtain their user id and password
- (v) The Members who have casted their vote by remote e-voting during remote e-voting period, may also attend/participate in 36<sup>th</sup> AGM through VC/OVAM, but shall not be entitle to cast their vote again. (vi) The Members present in the 36<sup>th</sup> AGM through VC / OAVM facility and have not

for remote e-voting by referring to the e-voting instructions available in AGM Notice;

casted their vote on the Resolutions through remote e-voting period and are

- otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system (vii) The Board has appointed M/s S A B & Company, (Membership No. ACS 57842) Practicing Company Secretaries, as the scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the
- e-voting process in a fair and transparent manner. (viii) The Register of Members and Share transfer Book of the Company Shall remain closed form Saturday, September 21, 2024 to Saturday, September 28, 2024 (both

In case of any queries relating to e-voting or attending AGM through VC/OAVM, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for the Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no: 1800-1020-990 or 1800-224-430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact National Securities Depository Limited, Trade World, A Wing; 4" Floor, Kamala Mill Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated email id:-evoting@nsdl.co.in.

> For G.K. Consultants Limited Divya Malini Gupta **Managing Director DIN: 00006225**

A.K. SPINTEX LIMITED

Regd. Office: 14 K.M. Stone, Chittor Road, Biliya-Kalan, Bhilwara-311001 (Raj.) Ph: 9887049006, 9929139002 . Email: akspintex@gmail.com . Website: www.akspintex.com CIN: L17117RJ1994PLC008916

### NOTICE OF AGM AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday 30th September, 2024 at the Registered office of the Company at 14 K.M. Stone, Chittor Road, Biliya Kalan, Bhilwara 311001at 11:00 A.M. to transact the Businesses, as set out in the Notice of AGM;

Electronic copies of the notice of the AGM and Annual Report for the year 2023-24 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same is also available on the Company's website www.akspintex.com Physical copies of the same have also been sent to all other members at their registered address

Members please note that:

in the permitted mode.

Members holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 23, 2024 may cast their vote electronically on the resolutions as set out in the notice of AGM through remote-electronic voting system on Central Depository Service Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("Remote E-voting). All the members are informed that:

 The remote e-voting shall commence on 27th Sept., 2024 at 10:00 A.M. [IST] and shall end on 29th Sept., 2024 at 5:00 P.M. [IST] II. A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the

notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining the loginid and password by sending an e-mail to akspintex@gmail.com or helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning their Folio No./DP ID and client ID No. However, if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user-id and password can be used for casting your vote. a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time

for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently:

 b) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also

attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper;

III. For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section

"NOTES" in notice of the AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting

procedure, shareholders may refer the FAQs for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or may contact: Particulars Central Depository Services (India) Ltd. A.K. SPINTEX LIMITED 17th Floor, P.J. Towers, Dalai Street, Address

	Fort, Mumbai 400001	Chittor Road, Biliya Kalan, Bhilwara-311001 (Raj.)
Name & Designation	Bhawendra Jha, Dy. Manager	Ashish Kumar Bagrecha CS & Compliance Officer
Tel.	022-22723333	01482-249002
E-mail id	helpdesk.evoting@cdslindia.com	akspintex@gmail.com
lace: Bhilwara late: 06° Sept., 2024	Ashish Kumar Bagrecha (Company	For A.K. SPINTEX LIMITED Secretary & Compliance Officer

Ansal Properties and Infrastructure Limited Corporate Identity Number: L45101DL1967PLC004759

Regd. Office: 115, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 Mobile: 91-9871053419, Tel.: 011-23353550, 011-66038308 Website: www.ansalapi.com; Email: shareholderservice@ansalapi.com NOTICE OF THE 57TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) THROUGH

**VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS.** 

**BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION** A. 57<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) Notice is hereby given that the 57<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members

28th September, 2024 at 12.30 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM). In accordance to the Securities and Exchange Board of India's (SEBI) circulars and the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations"), the  $^{ ext{AGM}}$  of the Company shall be held through VC / OAVM and the Notice convening the  $57^{ ext{th}}$ 

AGM along with the Annual Report for the Financial year 2023-24 have been sent on the

(Shareholders) of Ansal Properties and Infrastructure Limited will be held on Saturday, the

06th September, 2024 by electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company or with the Depository Participants/ Depositories. The Notice of the 57th AGM and the Annual Report for the Financial year 2023-24 are available on the website of the Company at https://ansalapi.com/disclosures-underregulation-46-of-the-lodr.php?#financial-information and also on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. These documents are also available on the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Link Intime

India Pvt. Ltd. ('LIIPL') at https://instavote.linkintime.co.in.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the shareholders of the Company will remain closed from 22<sup>nd</sup> September, 2024 to the 28<sup>th</sup> September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of holding the 57th AGM of the

Company. C. Remote e-voting

In compliance with the provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members which would enable them to cast their vote electronically through e-voting services provided by LIIPL (through their portal https://instavote.linkintime.co.in) on all the resolutions set forth in the Notice of the 57th AGM. The Members are requested to carefully read the instructions for remote e-voting mentioned in the notes to the Notice of the  $57^{\text{th}}$  AGM, before casting their vote.

E-voting rights shall be reckoned in proportion to the paid-up value of the Equity shares registered in the name of the members as on cut-off date i.e. the 21st September, 2024. The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. the 21st September, 2024, may cast their vote electronically (Remote e- voting/Evoting at AGM) on the business as set forth in the Notice of the 57<sup>™</sup> AGM of the Company. The remote e-voting will commence on the 25<sup>th</sup> September, 2024 at 9.00 A.M. (IST) and end on the 27th September, 2024 at 5.00 P.M. (IST). Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by LIIPL (i.e. Remote e- voting shall not be allowed beyond the said date and time). Once a vote on the resolution is cast, the member shall not be allowed to change

it subsequently. D. Attending and E-voting at the AGM:

Members may join the AGM through VC/OAVM facility through the e-voting Platform provided by LIIPL (https://instameet.linkintime.co.in) by following the instructions provided in the Notes to the Notice of the 57th AGM. Such facility of joining (for Members) shall be kept open for 30 minutes i.e. 15 minutes before and 15 minutes after the scheduled time of the commencement of the AGM. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to 1.000 Members on a first come first served basis as per the MCA

The Company is also providing facility for e-voting at the AGM through LIIPL ("InstaMeet" and the instructions of the same are also mentioned in the Notes to the Notice of the 57th AGM. Members voting through remote e-voting option may also participate in the AGM after exercising his right to vote through remote e -voting and shall be counted for the purposes of reckoning the guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013, but shall not be allowed/entitled to vote again at the AGM.

The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM (through e-voting) vide link (https://instameet.linkintime.co.in) when window for e-voting is activated.

E. Manner of getting email registered Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated

Date: 06<sup>th</sup> September, 2024

Place: New Delhi

New Delhi

their e-mail address with the Company are requested to register / update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a selfattested copy of PAN card (in case of non-individual shareholders, authority letter/resolution is required) at shareholderservice@ansalapi.com or LIIPL at shamwant.kushwah@linkintime.co.in. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update

A person, who has acquired shares and become member of the Company after the

their e-mail address with the relevant Depository Participant. Other instructions:

dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e., 21st September, 2024 and other members (who are holding shares in physical mode and who have not registered / updated their e-mail address with the Company as well as members who have not updated their emails with the Depository Participants/Depositories) may obtain the login id and password by following the instructions for remote e-voting/attending and voting at the AGM, as mentioned in the Notes to the Notice of 57th AGM which is available at the Company's website at https://ansalapi.com/disclosures-under-regulation-46-of-the-<u>lodr.php?#financial-information</u> and also on the website of LIIPL https://instavote.linkintime.co.in.

within forty-eight hours of conclusion of the AGM, i.e. on or before 30th September, 2024. The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of LIIPL and simultaneously be communicated to the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited. The result shall not be displayed on the Notice Board of the Company at its Registered Office. APAC & Associates LLP, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for the

The Result of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM shall be declared

voting process (including remote e-voting). In case the shareholders have any gueries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Insta vote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to instameet@linkintime.co.in or call them at Telephone: 022 – 49186175 or contact Mr. Abhishek Gupta, Dy. Manager (Secretarial), by writing an email on shareholderservice@ansalapi.com or call him at +91-9871053419 or visit at 112 Ansal Bhawan 16 K.G Marg, New Delhi 110001.

For Ansal Properties and Infrastructure Limited **Abdul Sami** 

> **Company Secretary** Membership No. FCS 7135

financialexp.epapr.in

Place: New Delhi

Date: 06<sup>th</sup> September, 2024

days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

ई-निविदा सूचना

तदद्वारा सूचित किया जाता है, कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास / अनुरक्षण / उच्चीकरण कार्यो हेत `सरकारी विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / प्राधिकरणों / परिषदों / नगर निकायों में कार्यरत फर्मो / ठेकेदारों से ई—निविदायें आमंत्रित की जाती है, जिसको अपलोड करने की समयसीमा निम्नवत् है—

. क्रम सं0 1 से 5 पर अंकित कार्यों की निविदा दिनांक 10.09.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक 19.09.2024 को अपरान्ह 5.00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं, जिन्हें दिनांक 20.09.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोला जायेगा (अल्पकालिक) 2. क्रम सं0 6 से 9 पर अंकित कार्यों की निविदा दिनांक 10.09.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से

दिनांक 30.09.2024 को अपरान्ह 5.00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं, जिन्हें दिनांक 01.10.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोला जायेगा (पूर्णकालिक)

निविदादाताओं द्वारा केवल शपथपत्रों की मूल प्रतियाँ निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित दिनांक तक कार्यालय में

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की लागत रू० (लाख में)
1	Upgradation and Maintenance of Grill, Kerb Stone and Construction of Footpath along road for Sector C-8 Rotary to Bhagar Singh Chowk at I.A. TDS City Ghaziabad.	227.47
2	Upgradation of Footpath & Kerb Stone along road at I.A. Baghpat	137.29
3	Upgradation of Remaining Road in Sector A-4 at I.A. TDS City, Ghaziabad	156.01
4	Upgradation of Road from Sector C-8 Rotary to Sector A-7 & Patch work on CC Road at I.A. TDS City Ghaziabad.	266.76
5	Interlocking tile work at I.A. Etah & IIDC Etah.	269.04
6	Construction of Connecting Road and Drain for Extension -I to Extension-II at I.A. Kosi Kotwan Distt. Mathura	103.97
7	Repairing and Raising Drain and Interlocking tiles at I.A. IIDC Kosi Kotwan Distt. Mathura	195.76
8	Upgradation of Remaining Roads in Sector B-3 at I.A. TDS City Ghaziabad	168.80
9	Construction of Footpath, Horticulture work and Beautification of Central Verge in Road No. 2 & 4 at I.A. Kosi Kotwan ExtII Distt. Mathura	145.61

निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की website: www.onlineupsidc.com पर स्थित ई–लिंक एवं यूपीएलसी की website: http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। अन्य जानकारी हेत् कार्यालय के सहायक प्रबन्धक (सिविल) के मोबाइल नं० 9044197166 पर सम्पर्क किया जा सकता है। महाप्रबन्धक (अभि०), उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, कानपुर

# एनचेंट ज्वेलरी लिमिटेड

सीआईएन : L74899HR1995PLC032759 पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 3 और 4 , उद्योग विहार , फेज–। 🗸 , गुरुग्राम – 1220 15 , हरियाणा

ईमेल:www.enchantejewellery.co.in येबसाइट : enchante@enchantejewellery.co.in

38वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और दूरस्थ ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए 'एनचेंटे ज्वैलरी लिमिटेंड' के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक **सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सबह 9:00 बजे #**12. सैक्टर-28. पुरुग्राम—122001, हरियाणा में आयोजित की जाएगी । एकीकृत वॉर्षिक रिपोर्ट, रूट मैप, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची उन सभी सदस्यों को भौतिक रूप से भेजी गई है जिनके पते कंपनी के आरटीए और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं।

जपरोक्त दस्तावेज www.enchantejewellery.co.in/; www.evoting.nsdl.com/; www.cdslindia.com; https://instavote.linkintime.co.in/. पर उपलब्ध हैं और डाउनलोड भी

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, सदरयों को दूरस्थ ई—वोटिंग सुविधा (एजीएम के स्थल के अलावा अन्य स्थान से | इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए) का उपयोग करके नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है ।

सदस्यों के मतदान अधिकार (दूरस्थ ई—वोटिंग के माध्यम से या बैठक में मतदान पत्रों के माध्यम से) सोमवार, 23 सितंबर, 2024 ('कट-ऑफ तिथि') को कंपनी में आयोजित उनकी संबंधित पेड-अप इक्विटी शेयर पूजी के अनुपात में होंगे ।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं और उसके बाद सुविधा को अक्षम कर दिया जाएगा।

मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा बैठक स्थल पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने दुरस्थ ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे मतदान पत्र के माध्यम से बैठक में अपने मताविकार का प्रयोग कर सकेंगे । जो सदस्य पहले से ही दूरस्थ ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति, जो बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, और कट—ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है; 'enotices@linkintime.co.in' पर अनुरोध मेजकर लॉगिन आईडी | और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। 'यूजर आईडी' और 'पासवर्ड' प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया भी| बैठक की सूचना में दी गई है, जो उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है। तथापि, यदि सदस्य दूरस्थ ई—मतदान के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत है, तो उसकी मौजूदा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है ।

दुरस्थ ई—वोटिंग से संबंधित विवरण कें लिए, कृपया कंपनी की 38वीं वार्षिक आम बैठक की विस्तृत सूचना देखें। यदि आपके पास दूरस्थ ई—वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न हैं, तो कृपया 'इंस्टावोट–लिंकिनटाइम' पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू) और ई—वोटिंग मैनुअल देखें या संपर्क करें: 022—49186000 या enotices@linkintime.co.in' पर अनुरोध भेजें । दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित शिकायतों के मामले में, कृपया निम्नलिखित

पर संपर्क करें: लिक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, सी—1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनक पुरी, नई दिल्ली — 11005B फोन: +91—11—494 11 000; फैक्स: +91—11—414 10 591, वेबसाइट: delhi@linkintime.co.in संपर्क व्यक्तिः सुश्री ज्योति सिंह, टीम सदस्य एनचेंट ज्वेलरी लिमिटेड

के बोर्ड के आदेश से

सी.एल. मेहरा (निदेशक)

तिथि: 07.09:2024

डीआईएन: 0 2 132 465 पता : एस-555, जीके-॥, नई दिल्ली -110 0 48 स्थान: गुरुग्राम

### जे बी लेमिनेशन्स लिमिटेड (पूर्व में जे बी लेमिनेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) सीआईएन : U22222DL1988PLC031038 पंजीकृत कार्यालयः 26/36, ऊपरी भूतल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110 0 0 8 ई—मेल : investor@jaybeelaminations.co.in वेबसाइट : https://jaybeelaminations.co.in/

36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग सूचना इसके द्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 28 **सितंबर, 2024 को दोपहर 2:00 बजे** आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 (एसीटी) और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम), 2015 के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी अन्य दृश्य—श्रव्य माध्यम से आईएसटी, सामान्य परिपन्न दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 20 सितंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 31 जनवरी 2020, 08 दिसंबर 2021 और 14 दिसंबर 2021, 02 / 2022 दिनांक 05 मई 2022 और 19 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 के साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी, सामृहिक रूप से एमसीए परिपन्न और सेबी परिपन्न दिनांक 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021, 13, 2022 और 05 जनवरी, 2023 (सेबी परिपन्न) को एजीएम की सूचना में निर्धारित कारोबार करने के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों, निदेशकों की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वालें अन्य दस्तावेजों के साथ एजीएम बुलाने की सुचना शामिल है, शुक्रवार, 06 सितंबर, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के साथ पंजीकृत हैं, उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी विनियमों के अनुसार। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट क्रमश: www.jaybeelaminations.co.in, www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरीज लिमिटेंड ("एनएसडीएल") यानी www.evoting.nsdl.com पर भी

अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, समय—समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और | प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 44 के साथ, कंपनी अपने सभी सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई दूरस्थ ई—वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है । कट—ऑफ तिथि यानी शनिवार, 21 सितंबर, 2024 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य दूरस्थ ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं । सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- क) 38वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित सभी कार्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किए
- ख) रिनोट ई-वोटिंग **बुधवार, 25 सितंबर, 2024 (सुबह 09:00 बजे) IST** से शुरू होगी और शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को समाप्त होगी।
- ग) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने या वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि शनिवार, 21 सितंबर, 2024 है।
- घ) यदि कोई व्यक्ति एजीएम नोटिस के प्रेषण (केवल मेल के माध्यम से) के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है, लेकिन कट-ऑफ तिथि को या उससे पहले, ऐसा व्यक्ति https://www.evoting.nsdl.com/ पर ई-मेल अनुरोध भेजकर या 18001020990 और 1800224430 पर कॉल करके एनएसडीएल से ई—योटिंग के लिए युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, एजीएम के नोटिस में दिए गए ई—वोटिंग के निर्देशों और प्रक्रिया का पालन
- करके वोट डाल सकता है। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति.
- च) एजीएम प्रणाली के दौरान ई—वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई गई है जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है।
- छ) सदस्य रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपने वोट का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है.

लेकिन उसे एजीएम में फिर से वोट करने की अनुमति नहीं होगी। 36वीं एजीएम के दौरान डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट ई–वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया 36वीं एजीएम की सूचना में दी गई है । मैसर्स पंकज निगम एंड एसोसिएट्स के प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी श्री पंकज निगम (सदस्यता संख्या F7343) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग (रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग दोनों) की जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया है।

तिथि: 06.09.2024

स्थान : नोएडा

निदेशक मंडल के आदेश से जय बी लेमिनेशन्स लिमिटेड के लिए

( पूर्व में जय बी लेमिनेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था )

हस्ता/-आरती चौहान कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

Place: New Delhi

Date: 06<sup>th</sup> September, 2024

प्रपत्र वी

सार्वजनिक उद्घोषणा (इन्सॉल्वैन्सी एंड बैंकरप्सी (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12)

धारित्रीमा ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ कार्पोरेट ऋणधारक का नाम धारित्रीमा ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि | 10/02/2011 वह प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट रिजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऋणधारक निगमित / पंजीकृत है दिल्ली, नई दिल्ली कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पड़बान U101000L2011PTC213669 संख्या / देयता पहचान सं. कापीरेट ऋणधारक के पंजीकृत पंजीकृत कार्यालय एफ-35/4, भृतल, ओखला कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि औद्योगिक क्षेत्र, फेज-।। नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली, दिल्ली -110020 इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समाप्त होने 04-07-2024 कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू 27 अगस्त, 2024 (एनसीएलटी का दिनांक 27.08 2024 हा आदेश परिसमापक को दिलाक 03.09.2024 के ईमेल होने की तिथि हारा प्राप्त हुआ) परिसमापक के रूप में इन्सॉल्वेन्सी संजीव कुमार अरोड़ा प्रोकेशनल का नाम एवं पंजीकरण संख्या | IBBI/IPA-001/IP-P-01462/2018-2019/12390 बोर्ड के पास पंजीकृत परिसमापक का पता: डी-3/3465, वसत कुंज, नई दिल्ली, दक्षिण पता तथा ई-मेल पश्चिम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 110070

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि **नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नई दिल्ली कोर्ट**—111 ने 27 अगस्त 2024 को धारित्रीमा ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का

परिसमापक के साथ पत्राचार हेतु पता फ्लैट नं 573, पॉकेट 1, सेक्टर 22 हारका, नई

26-09-2024

रोबाइल नं. 9810334801

ईमेल पता: mrask4@yahoo.co.in

इंभेल पता: liquidation.dharitrimaaurja@gmail.com

धारित्रीमा ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को प्रमाण के साथ अपने दावे 26 / 09 / 2024 तक या उससे पहले आइटम नंबर 10 के सामने उठिलखित पते पर लिविवडेटर को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय ऋणदाता अपने दावे प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सबूत के साथ दावे प्रस्तुत

कर सकते हैं। संबंधित प्रपन्न यहां उपलब्ध है: https://ibbi.gov.in/home/downloads दावों के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

इस्तेमाल किया जाने वाला पता एवं इंगेल दिल्ली – 110075

दावे जमा करने की अंतिम तिथि

संजीव कुमार अरोडा स्थानः नई दिल्ली (परिसमापक) विनांक: 06-09-2024

### जीडीएल लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड सीआईएन : L74899DL1994PLC057107

पंजीकृत कार्यालय : 206 , दूसरी मंजिल , वर्धमान डायमोड प्लाजा , प्लॉट नं .3 डीडीए कम्युनिटी सेंटर, डी.बी. गुप्ता रोड, मोतिया खान, पहाड़ गंज, नई दिल्ली 110 0 55 टेलीफोन नंबर: 0 11-692 0 62 16 , ई-मेल : info123gdl@yahoo.com वेबसाइट:www.gdlleasing.com

### 31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को प्रात: 09.30 बजे 220/4, सिंघु गांव, सिंघु बॉर्डर के पास दिल्ली—110040 में आयोजित की जाएगी, जिसमें उक्त एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसायों का संचालन किया जाएगा, जिसे 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 05 सितंबर, 2024 को सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेज दिया गया है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर और ट्रांसफर बुक 31वीं एजीएम के उद्देश्य से मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 से सोमवार, 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के साथ-साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर), विनियमन 2015 के विनियमन के अनुसरण में, कंपनी भ्रपने सदस्यों को ई—वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है जैसा कि सीडीएसएल द्वारा 31 वीं एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर प्रदान किया गया है । कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रोंनिक माध्यमों से मतदान के माध्यम से व्यवसाय का लेन—देन कर सकते हैं ।

- रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और सभी शेयरधारकों के लिए रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी, चाहे वे भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हों या अमौतिक रूप में। मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई—वोटिंग मॉंडबूल प्रदर्शित किया जाएगा। रिमोट ई—वोटिंग को उक्त तिथि और समय से आगे
- 2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा वोट डालने की पात्रता निर्धारित करने की कट—ऑफ तिथि **सोमवार**, 23 सितंबर, 2024 है।
- एक व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयरधारक बन जाता है और कट-ऑफ तारीख के अनुसार शेयर रखता है, वह अपने फोलियो नंबर / डीपी आईडी और वलाइंट आईडी नंबर का उल्लेख करते हुए helpdesk.evoting@cdslindia.com admin@skylinerta.com को ई—मेल भेजकर लॉगिन—आईडी और पासवर्ड प्राप्त करके रिमोट ई—वोटिंग कर सकता है। हालांकि, अगर ऐसा शेयरधारक पहले से ही रिमोट ई—वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।
- . एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी । बैठक में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
- 5. एक सदस्य दूरस्थ ईं–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं देगा। 5. 31वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.gdlleasing.com और सीढीएसएल

www.evotingindia.com की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- . एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या 23 सितंबर, 2024 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह मतदान का हकदार होगा। . यदि आपके पास ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो कपया सहायता के लिए
- www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और ई-वोटिंग मैनुअल देखें। या ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com] दोल फ्री नंबर 1800-200-5533 या प्रेम क्मार जान, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक को info123gdl@yahoo.com/ 011--69206216 पर संपर्क

जीडीएल लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के लिए तिथि:07.09.2024 प्रेम कुमार जैन

स्थान: नई दिल्ली

(निदेशक)

### G. K. CONSULTANTS LIMITED **CIN-**L74140DL1988PLC034109

Registered Office: 302, G.K. House, 187A, Sant Nagar, East Of Kailash, New Delhi-110065, India | Phone: 011-26489431 **E-mail:** akg\_gkcl@yahoo.co.in; **Website:** www.gkconsultantsltd.com NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH

**VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS** NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of M/s G.K. CONSULTANTS LIMITED ("the Company") will be held on Saturday, September 28, 2024 at 04:00 P.M., through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and

Rules framed thereunder read with applicable General Circular(s) issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities & Exchange Board of India ("SEBI") in this regards, to transact such business(es) as set out in the 36<sup>th</sup> AGM Notice, without physical presence of Members at a common Venue. In accordance to the MCA Circulars & SEBI Circulars, the Company has completed the dispatch of the Notice of 36<sup>th</sup> AGM alongwith Annual Report 2023-24 for the financial year ended on March 31, 2024, on Friday, September 06, 2024 only through electronic mode

to those members, whose e-mail IDs were registered with the Company / Depository Participant as on Friday, August 30, 2024. Members can participate and attend the AGM only through VC/OVAM facility, the details/ instructions for Joining the Meeting are provided under the Notes section of the Notice of 36th AGM. Members attending the Meeting through VC/OVAM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

The notice of 36<sup>th</sup> Annual General Meeting alongwith Annual Report 2023-24, is available on the Company's website at https://www.gkconsultantsltd.com and also available on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at https://www.bseindia.com.

### Instructions for e-voting are as under: -(i) The company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on

- resolution(s) proposed to be passed at the 36th AGM by electronic means (remote e-voting / e-voting at the 36th AGM). The company has engaged the services of NSDL as the agency for providing the remote e-voting / e-voting at the 36th AGM facility to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of 36th AGM. The Detailed procedure to cast vote through remote e-voting / e-voting at the 36th AGM are provided in the Notice of 36th AGM. The Members are requested to read the
- (ii) The remote e-voting period shall commence on Wednesday, September 25, 2024 (09:00 a.m.) and ends on Friday, September 27, 2024 (05:00 p.m. IST). The remote e-voting shall be disabled by NSDL thereafter and remote e-voting shall not be
- (iii) A person, whose name appears/ recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e., Saturday, September 21, 2024 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/ e-voting at the meeting;
- (iv) Any person, who has acquired shares and becomes the member of the Company after sending the notice of 36th AGM and holding shares as on cut-off date (for e-voting) i.e., Saturday, September 21, 2024 may obtain their user id and password for remote e-voting by referring to the e-voting instructions available in AGM Notice;
- (v) The Members who have casted their vote by remote e-voting during remote e-voting period, may also attend/participate in 36th AGM through VC/OVAM, but shall not be entitle to cast their vote again. (vi) The Members present in the 36th AGM through VC / OAVM facility and have not
- casted their vote on the Resolutions through remote e-voting period and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system (vii) The Board has appointed M/s S A B & Company, (Membership No. ACS 57842)
- e-voting process in a fair and transparent manner. (viii) The Register of Members and Share transfer Book of the Company Shall remain closed form Saturday, September 21, 2024 to Saturday, September 28, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Practicing Company Secretaries, as the scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the

n case of any queries relating to e-voting or attending AGM through VC/OAVM, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for the Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no: 1800-1020-990 or 1800-224-430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact National Securities Depository Limited, Trade World, A Wing; 4" Floor, Kamala Mill Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated email id:-evoting@nsdl.co.in.

For G.K. Consultants Limited

Divya Malini Gupta **Managing Director DIN**: 00006225 जनसता

आगंत्रित किये जा रहे हैं:

और पानीपत रहेशनों पर।

चरण में 90 दिन होगी।

अलग से लिगा जाएगा।

प्रतिभागी के लिए पात्रता मानदं ह निम्नलिखित हैं.

घ) समाज के हाशिए पर या कमज़ोर वर्ग।

के लिए कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।

7 सितंबर, 2024

### उत्तर रेलवे

ख) ट्रालीः बागपत रोड, बडौत, खेकडा, नोली, बल्लभगढ, दिल्ली किशनगंज, फरीदाबाद,

परतापुर, देवबंद, शामली, खतौली, सकौती टांडा और मोदीनगर स्टेशनों पर।

फरीदाबाद न्यू टाउन, ओखला, नांगलोई, नरेला, सांपला, शकूरबस्ती, तुगलकाबाद,

दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली सफदरजंग, शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज, मुरादनगर

गाजियाबाद, रोहतक और गुजफ्फरनगर स्टेशनों पर स्टॉल स्थापित करने की अवधि प्रति

उपरोक्त (ख) समूह के अंतर्गत दिए गए स्टेशनों पर ट्राली स्थापित करने की अवधि 30

NSG 1, 2 और 3 स्टेशनों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 2000 रु. की दर से प्रत्येक तीस दिनों की

अवधि के लिए हर बार अलग से लिया जाएगा और NSG 5 (मेरठ केंट, शामली, सांपला,

बागपत रोड, खतौली, खेकड़ा, दिल्ली किशनगंज, शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज, मुरादनगर

देवबंद और दिल्ली सफदरजंग) &- NSG 6 (परतापुर और सकौती टांडा) स्टेशनों के

लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000 रू की दर से प्रत्येक तीस दिनों की अवधि के लिए हर बार

विकास आयुक्त हस्तशिल्प, विकास आयुक्त हथकरघा, या अपेक्षित राज्य/केंद्र

ख) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)/राष्ट्रीय

हथकरचा विकास निगम (एनएचडीसी) / खादी और ग्रामोद्योग आयोग

(केवीआईसी) / गैर सरकारी संगठन और सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के

उद्यम पोर्टल पर सूक्ष्म उद्यमों के साथ पंजीकृत और सामाजिक संगतनों, राज्य सरकार

के साथ निकायों आदि के साथ नामांकित / पंजीकृत व्यक्तिगत कारीगर / बनकर /

ग) पीएमईजीपी (प्रधान मंत्री रोजगार सजन कार्यक्रम) के साथ पंजीकृत खर्य सहायता समूह

आवेदक को स्टेशन अधीक्षक की एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह संकेत

दिया जाएगा कि ट्रेन संचालन, यात्री सुरक्षा और रेलवे की छवि पर प्रतिकुल प्रभाव डालने

आवेदक द्वारा का आवेदन इस अधिसूचना के जारी होने के बाद 11.09.2024, 15:00 बजे

तक स्टेशन अधीक्षक को संबोधित व जमा किया जा सकता है व उसी दिन खोला जाएगा।

सभी अनुमोदित प्रतिभागियों का प्राथमिकता रोस्टर बनाने के लिए एसएस और स्टेशन

प्रबंधक / अनुमागीय सीएमआई और नामांकित वित्त प्रतिनिधि द्वारा सभी अनुमोदित आवेदको

की उपस्थिति में स्टेशन पर आयोजित ड्रा के माध्यम से प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी।

'एक स्टेशन एक उत्पाद' योजना रेलवे बोर्ड वाणिज्यिक परिपत्र संख्याः 12/2022 एव

09/2023 के तहत/अधीन मान्य होगी, उपरोक्त परिपन्न वेबसाइट

www.indianrailways.gov.in & URL https://indianrailways.gov.in.

railwayboard/uploads/directorate/traffic\_comm/Comm\_Cir\_2022/

OSOP%20Policy.pdf 3ft https://indianrailways.gov.in/railwayboard/

uploads/directorate/traffic\_comm/Comm\_Cir\_2023/CC%20%2009%

20of%202023 पर उपलब्ध है। इस से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए आवेदक

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

स्टैण्डर्ड सरफेक्टेन्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 8/15, आर्य नगरे , कानपुर-208 002

सी.आई.एनः L24243UP1989PLC010950

इमेल: headoffice@standardsurfactants.com, फोन: 0512-2531762,

वेबसाइटः www.standardsurfactants.com

वार्षिक सामान्य सभा, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

तित्हारा सुचित किया जाता है की कंपनी की 35वी वार्षिक सामान्य बैठक 68–ए, दादा नगर

एवं सेबी द्वारा समय समय पर जारी किये गए सर्कुलर के अनुपालन में, नोटिस में बताये गए

प्रोयजनो हेतु आयोजित की जायेगी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसार नोटिस

कंपनी के सदस्यों को वस्तुगत के साथ पंजीकृत ईमेल द्वारा भेजी जा चुकी है वार्षिक सामान

सभा सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023–24 की प्रतिलिपि 7 सितम्बर 2024 को भेजी ज

चुकी है। वार्षिक सामान्य सभा सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023–24 कंपनी की वेबसाइर

https://www.standardsurfactants.com; पर भी उपलब्ध है। एतरद्वारा ये भी सूचित

किया जाता है की सेबी सुचियां दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनिमयन 42

एवं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी प्रबंधन और प्रशासन नियम 2014

के नियम 10 के अनुपालन हेत सदस्य रिजस्टर और शेयर हस्तांतरण बही दिनाक 25 सितम्बर

2024 से 30 सितम्बर 2024 (दोनों दिन शामिल ) तक बंद रहेंगे. कंपनी अधिनियम 2013 की धार

108 के साथ पठित कंपनी प्रबंधन और प्रशासन नियम 2014 संशोधित नियम 20 तथा विनियम

4 सेबी सुचियां दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षां) विनियमन 2015 के अनुपालन में नोटिस में बतारं

गए प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा किये जा सकते हैं और कंपनी अपने समस्त शेयरधारक

रिमोट ई वोटिंग अवधि शुरू होने की तिथि एवं समय-27 सितम्बर 2024 प्रात: 09:00 बजे ।

2— रिमोट ई वोटिंग अवधि समाप्त होने की तिथि एवं समय 29 सितम्बर 2024 05:00 बजे

उ– रिमोट ई वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 29 सितम्बर 2024 अपराह 5 बजे के बाद नहीं की

ई वोटिंग पात्रता की अंतिम तिथि कट ऑफ डेट 23 सितम्बर 2024 है केवल वे ही व्यक्ति

रिमोट ई वोटिंग सुविधा और सामान्य बैठक में वोटिंग करने के पात्र होंगे जिनके नाम अंति

तिथि को या तो सदस्य रजिस्टर में या डिपॉसिटोरी द्वारा चलाये जाने वाले लाभार्थी

कंपनी का कोई सदस्य जो नोटिस भेजे जाने के बाद किन्तु अंतिम तिथि से पहले सदस्य

बनता है। वह रिमोट ई वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड कंपनी के रजिस्ट्रार और

बैठक में वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम या मतपत्र या पोलिंग पेपर के माध्यम

से सुविधा उपलब्ध होगी और बैठक में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई वोटिंग से पहले

सदस्य जिन्होंने बैठक से पूर्व रिमोट ई वोटिंग द्वारा अपना वोट कर दिया है वे भी बैठक

कंपनी की वार्षिक सामन्य बैठक का नोटिस लिंक https://standardsurfactants.com/

wp-content/uploads/2023/09/Annual-Report-2023-24.pdf. से डाउनलोड किया

– कंपनी ने श्री शिवांश तिवारी, अभ्यासरत कंपनी सचिव को पर्यवेक्षक के रूप में ई–वोटिंग व

वोटिंग से सम्बंधित प्रश्नों के लिए https://www.evotingnsdl.com के डाउनलोड सेक्श-

में उपलब्ध सदस्यों के लिए बहुदा पूछे गए प्रश्न (FAQs) और ई वोटिंग यूजर मैन्युअल देखे

यूनिफिन्ज कैपिटल इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में भी वर्ल्डवर्स लिमिटेड के नाम से लागा साहा सा

पंजीवृत कार्याहरू पामहा हाउस, तीसरी अंग्रित, 19, बेडल प्लेस,

star feed, of feed, feed-110019, who +91-11-49953454.

t ster essistendingplate.com, duerne https://www.unifinz.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विज्अल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से

आयोजित होने वाली 41वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के संबंध में जानकारी

चित किया जाता है कि यूनिफिन्ज़ कैपिटल इंडिया लिमिटेड (जिसे श्री वसंटेक्स लिमिटेड

गम से भी जाना जाता है) के सदस्यों की 41वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("वार्षिक सामान्य बैठक"

सोमवार. ३० सितंबर २०२४ को भारतीय समयानसार ३:०० बजे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (वीसी)अन्य

ऑडियो-विज़अल साधनों (ओएवीएम)के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें ई-वोटिंग के

माध्यम से व्यवसायिक कार्यों का निष्पादन किया जाएगा, जैसा कि वार्षिक सामान्य बैठक 'के

गोटिस में उल्लिखित है। कंपनी ने ६ सितंबर २०२४ को वित्तीय वर्ष २०२३-२४ की वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक सामान्य बैठक. के नोटिस के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को

भेज दी है, जिनके ईमेल पते कंपनी और/या डिपॉजिटरीज़ के साथ पंजीकृत हैं, जो कॉपॉरेट

मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपन्नों के अनसार है।

वार्षिक सामान्य बैठक के नीटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट

https://www.unifinz.in/investor.php, NSDL पर www.evoting.nsdl.com और एक्सचेज पर

(A) बुक क्लोजर: कंपनियों अधिनियम, 2013 की घाटा 91 और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन)

नेयम, २०१४ के नियम १० और SEBI (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)

विनियम 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर

(B) **रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान ई-वोटिंग**: कंपनियों अधिनियम,

२०१३ की धारा १०८. कंपनियों (प्रवंधन और प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम २०. और SEBI

ासूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ। विनियम २०१५ के विनियम ४४ वे

प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को NSDL द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणार्ल

'रिमोट ई-वॉटिंग') के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस में उल्लिखित सभी प्रस्ताव

पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है। वोटिंग का अधिकार शेयरधारकों के पेड़-

अप इक्विटी शेयर पूर्जी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा, जो कट-ऑफ तिथि, सोमवार, 23

सितंबर २०२४ पर आधारित होगा। जिन व्यक्तियों को इस सूचना के प्राप्तकर्ता है और जिनके पास

कट-ऑफ तिथि पर मतदान का अधिकार नहीं है. उन्हें इस सूचना को केवल सूचना के रूप में

देखना चाहिए। रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, २७ सितंबर २०२४ को सुबह ९:०० बजे शुरू होगी

और रविवार, २९ सितंबर २०२४ को शाम ५:०० बजे समाप्त होगी। वे सदस्य, जिनके नाम रजिस्टर

ऑफ मेम्बर्स/बेनेफिशियल ओनर्स में कट-ऑफ तिथि के अनुसार दर्ज हैं, वे अपने वोट को या

तो रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख को ई-वोटिंग/वेन्यू वोटिंग प्रणाली

के माध्यम से डालने के लिए पात्र होंगे और लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए

evoting@nsdl.co.in और abhishekm@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।यदि वे पहले से ही

NSDL के साथ पंजीकृत हैं, तो वें अपने मीजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते

हैं। वे सदस्य/शेयरधारक जो वार्षिक सामान्य बैठक में वीसी/औएवीएम के माध्यम से उपस्थित

होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-चोटिंग के माध्यम से अपना बोट नहीं डाला है, वे वार्षिक सामान्य

बैठक में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-

वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे,

लेकिन वे वार्षिक सामान्य बैठक . में मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी भी प्रश्ना/शिकायत

के लिए, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलीड अनुभाग में शेयरधारकों के लिए बार-बार

पुछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैन्अल का संदर्भ ले सकते हैं, या 022

48867000 / 022 - 24997000 पर कॉल कर सकते हैं या श्री अभिषेक मिश्रा को evoting@nsdl.co.in

और abhishekm@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं, या NSDL को Trade World. A विंग, 4th

फ्लोर, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअंर परेल, मुंबई - ४०००१३, या यूनिट नं. ६०१,६०३,६०४, ६७

फ्लोर, टॉवर A. नौरंग हाउस, कस्तुरबा गांधी मार्गे, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली + 110001 पर लिख

सकते हैं या कंपनी सचिव से cs@lendingplate.com पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी वार्षिक

मामान्य बैठक के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को मतदान के

परिणामों की जानकारी देगी और परिणाम कंपनी की वेबसाइट https://www.unifinz.in/. NSDL पर

www.evoting.nsdk.com और एकसचैन पर 'www.bseindia.com' पर उपलब्ध होंगे।

बक्स वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य से मंगलवार. २४ सितंबर २०२४ से सोमवार. ३० सितंबर

वास्ते स्टैन्डर्ड सरफैंक्टॅन्टस लिमिटेड

(पवन क्मार गर्ग

डी.आई.एन. 00250836

चेयरमैन एवं प्रबन्धे निदेशक

शेयर ट्रांसफर एजेंट आर टी ऐ या NSDL से प्राप्त कर सकता है

वोट नहीं दिया है वे बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते है।

मतदान प्रक्रिया को सुवारु रूप से कराने के लिए नियुक्त किया है।

अथवा टोल फ्री नंबर 1800222990 पर NSDL से संपर्क करें।

स्थान : कानपुर

दिनांक : 07.09.2024

www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

२०२४ तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।

उपस्थिति हो सकते हैं किन्तु उन्हें पुनः वोट करने की अनुमति नहीं होगी

स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे।

को सहर्ष रिमोट ई वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है इस सम्बन्ध में विवरण निम्नवत है।

नपूर —208022 में सोमवार, दिनाक 30.09.2024 को अपराह 2:30 बजे, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

संबंधित स्टेशनों के स्टेशन अधीक्षक या सीएमआई से संपर्क कर सकता है।

सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी कारीगरों / बनकर आईडी कार्ड धारक।

ड) किसी भी अलग प्रतीक चिन्ह की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

''एक स्टेशन एक उत्पाद' 'एक स्टेशन एक उत्पाद' योजना के तहत स्टॉल स्थापित करने हेत् आवेदन

### पंजी. कार्यांतक: १ए/३९, (12-पहली मंजिल), उब्ल्यूईए चन्ना मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 फोनः 011-47532792, फैक्सः 011-47532798, ईमेलः cs@bonlonindustries.com, 27वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **क) स्टॉल**: गाजियाबाद, करनाल, पटौदी रोड, गुडगांव, दिल्ली केंट, मेरठ सिटी, मेरठ केंट ई-वोटिंग सूचना और खाता बंदी

एतदहारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी की व शनिवार, 28 सितंबर, 2024 की दोपहर 02:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") की सुविधा के माध्यम से 27वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित किए अनुसार कारोबार करने के लिए आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों और भारतीय

बोनलोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः L27108DL1998PLC097397

प्रतिभृति और विनिभय बोर्ड (सुवीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के सह पठित ५ मई, २०२० के परिपत्र संख्या २०/२०२० के सहपठित, ८ अप्रैल, २०२० के सामान्य परिपन्न संख्या 14 / 2020 के सहपठित, 13 अप्रैल, 2020 के परिपन्न संख्या 17 / 2020, 13 जनवरी, 2021 के सामान्य परिपन्न संख्या 02/2021 और सामान्य परिपन्न संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांक 25 सितम्बर 2023 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए परिपत्र') हारा जारी और 12 मई, 2020 का परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी१ / सीआईआर / पी / 2020 / 78 दिनांक 15 जनवरी 2021 परिपत्र संख्या सेबी/एषओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 और सेबी / एवओं / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 और सेबी / एचओ / सीआरडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्रं") ('एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्रों को सामृहिक रूप से एतदद्वारा ('परिपत्रों') के रूप में संदर्भित किया गया है, अन्य लागू परिपत्रों के साथ, 27वीं एजीएम के नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों को एजीएम के नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 06 सितंबर, 2024 को पूरा हो गया है। उपरोक्त गोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.bonlonindustries.com और स्टॉक एक्सथेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के सहपठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 समय-समय पर संशोधित और सेबी (सूबीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 और सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक (एसएस-2) के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को वीसी/ओडब्ल्युवीएएम सुविधा के माध्यम से एजीएम के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से वोट करने और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की रिमोट ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने में हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करती है। इस संबंध में प्रक्रिया / निर्देश एजीएम के नोटिस के नोटस में दिए गए हैं।

कंपनी के सदस्य जो कट—ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर 2024 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर चारक हैं, वे रिमोट ई—वोटिंग द्वारा वोट देने या वीजी / ओएबीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने और एजीएम में वोट देने के पात्र होंगे। सदस्यों के बोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। **रिमोट ई—वोटिंग** अवधि बुधवार, 25 सितंबर 2024 (प्रात: 09.00 बजे आईएसटी) से शुरू होगी और शुक्रवार 27 सितंबर, 2024 (सांय: 05.00 बजे आईएसटी) को समाप्त हो जाएगी। इसके वाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई--वोटिंग मॉडधूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकतें हैं, लेकिन उन्हें दुबारा अपना वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार, 21 सितंबर 2024 तक शेयर धारक है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मीजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर

कंपनी की सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियां वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से रविवार, 22 सितंबर, 2024 से शनिवार, 28 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेगी। ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए श्री संजीव डवास, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को जांचकर्ता नियुक्त किया गया है।

जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी को cs@bonlonindustries.com पर 24 सितंबर, 2024 तक या उससे पहले अपने पंजीकृत ईमेल के माध्यम से अनुरोध भेजकर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं । साथ ही, शेयरधारकों के नाम और पते का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति, पैन/अन्य पहचान की स्व-सत्यापित प्रति और पते का प्रमाण भी साथ लाना होगा।

डीमटेरियलाइञ्ड मोड में शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को अपडेट करें। वोटिंग या वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न के

मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुरितका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेज सकते है या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेंड वर्ल्ड, ए विंग; 4 तल, कमला मिल कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013 से निर्दिष्ट ईमेल आईडी: – evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते निदेशक मंडल की ओर से

कृते बोनलॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड अरुण कुमार जैन प्रबंध निदेशक ढीआईएनः 00438324

दिनांकः 06 सितंबर, 2024

स्थानः नई दिल्ली

भारत निधि लिमिटेड सीआईएन नं. : U51396DL1942PLC000644 पंजीकृत कार्यालयः 3/8, दूसरी मंजिल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली 110002 ईमेल आईडी: bharatnidhi1@gmail.com फोन नंबर: 011-43562982

81वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर (बही बंद) और ई-वोटिंग की सूचना एतद्वारा सुचित किया जाता है कि:

 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपन्न सं. 20 / 2020 दिनांक 5 मई, 2020 के क्रम में सामान्य परिपन्न सं. 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023. ("एमसीए परिपन्न") के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की 81वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितम्बर, 2024 को दोपहर 3:00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी'') के माध्यम सं, एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एजीएम का मानित स्थान

 कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांस्फर रजिस्टर मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 से सोमवार 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

- एमसीए परिपत्रों के अनुसार एजीएम आमंत्रण सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 उन सदस्यों को ईमेल से मेजी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी में पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए के परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 20, समय-समय पर संशोधित, के अनुपालन में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग) संबंधी आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:
- (क) एजीएम में किए जाने वाले कार्य रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से किए जा सकते हैं। (ख) रिमोट ई–वोटिंग शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 (सुबह 9 बजे आईएसटी) से शुक्त होगी और

रविवार, 29 सितंबर, 2024 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। इसके बाद ई-वोटिंग मॉडयल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

(ग) कट—ऑफ तिथि 23 सितंबर, 2024 है। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि में सदस्यों के रजिस्टर या फिर डिपॉजिटरी के लामार्थी रजिस्टर में दर्ज होंगे केवल वही रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग करने का अधिकारी होगा।

(घ) कोई व्यक्ति जो सूचना भेजने के बाद कम्पनी के शेयर लेता है और कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि में शेयरधारक है तो उससे अनुरोध है कि इस संबंध में सहायता के लिए अपने फोलियो नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए आरटीए को parveen@skylinerta-com पर लिखित निवेदन / ईमेल भेजें।

(ङ) सदस्य जो वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेते हैं और रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर मतदान नहीं करते हैं वे एजीएम में उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम से मतदान (च) सदस्य जो एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग से मतदान कर देते हैं वे भी एजीएम में

भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम के दौरान ई-बोटिंग सिस्टम से दुबारा मतदान करने के

(छ) श्री. मोहित बंसल (मेसर्स मोहित बंसल एंड एसोसिएटस), प्रैक्टिसिंग कन्पनी सचिव (सदस्यता संख्या F11292, सीओपी नंबर 16860) ई—वोटिंग प्रक्रिया के स्कुटनाइजन

नियुक्त किए गए हैं। (ज) रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग और वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

(ज) यह सूचना आरटीए की वेबसाइट www.skylinerta.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

(ञ) ई—वोटिंग के संबंध में किसी प्रश्न / समस्या के समाधान के लिए सदस्य संपर्क करें: श्री राकेश दलवी (1800 210 991), पताः ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन पूचरएक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013, ईमेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com । सदस्य कम्पनी के आरटीए को parveen@skylinerta.com पर भी लिख सकते हैं।

(त) वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 की प्रमावी तिथि से लागांश की आय के लिए शेयरधारकों पर कर लागू है और कम्पनी के लिए सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर निर्धारित दरों से कर काटना आवश्यक है। इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार और ट्रांस्फर एजेंट (यदि शेयर भौतिक रूप में हैं) और डिपॉजिटरी प्रतिमागियाँ (यदि डीमैट शेयर हैं) को अपना पैन अपडेट कर दें। हालांकि निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक को देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा यदि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त कुल लामांश 5000 रुपयों से अधिक नहीं हैं।

निवासी शेयरधारकों के लिए, कर की कटौती आयकर अधिनियम की धारा 194 के तहत 10% की दर से लाभांश की राशि पर की जाएगी, जहां शेयरधारकों ने अपना पैन डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या आरटीए के साथ पंजीकृत कर लिया है। कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित मामलों में कर की कटौती 20% की दर से की जाएगी:-

• शेयरधारक जिनके पास पैन नहीं है या जिन्होंने अपना वैध पैन उपरोक्त उल्लिखित तरीकें से पंजीकृत नहीं किया है;

शेयरधारक जो धारा 206AB अनुपालन उपयोगिता में निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में

 शेयरधारक जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है। यदि किसी निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक के लिए आयकर देय नहीं है तो उसे कर नहीं

कटने का लाभ लेने के लिए कम्पनी के आरटीए को info@skylinerta.com और parveen@skylinerta.com पर 23 सितंबर, 2024 तक (शाम 5.00 वजे आईएसटी तक) फॉर्म 15G / 15H में वार्षिक घोषणा ईमेल करनी होगी।

कृते भारत निधि लिमिटेड अमिता गोला कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली

दिनाकः 06 सितंबर, 2024

दिनांक: ०६ सितंबर, २०२४

स्थान: दिल्ली

www.readwhere.com

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

(जिसे श्री वस्टिक्स लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है)

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार

युनिफ़िन्ज़ कैपिटल इंडिया लिमिटेड

रितु तोमर